

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253056
SG-DL-E-15032024-253056असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 473
No. 98]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945	[N. C. T. D. No. 473

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली जल बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024,

दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन (संशोधन) विनियम, 2024

(2024की सं० 01)

फा० सं० 16 (712)/शा०वि०/जल/2023/2118.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम (1998 की अधिनियम सं० 4) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्वारा दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम, 2018 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—

- इन विनियमों को “दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन (संशोधन) विनियम 2024” कहा जाये।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम, 2018 में संशोधन निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	संदर्भ	मौजूदा डीडब्ल्यूबीएसएमआर, 2018 के अनुसार	प्रतिस्थापित किया जाए
1.	अध्याय—III, 19 सेप्टेज का निपटान—निबंधन एवं शर्तें, 11	(क) लाइसेंसधारी केवल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों के सेप्टेज का निपटान करेगा। (ख) लाइसेंसधारी इन विनियमनों के अनुलग्नक-2 में निर्धारित विधिवत् हस्ताक्षरित सेप्टेज संग्रहण एवं निपटान प्रपत्र को विधिवत् भरकर अधिसूचित स्थानों पर सेप्टेज प्राप्त करने के लिये तैनात दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को प्रस्तुत करेगा।	(क) कोई परिवर्तन नहीं। (ख) लाइसेंसधारी इन विनियमनों के अनुलग्नक-2 तथा संशोधित अनुलग्न-3 (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्धारित विधिवत् हस्ताक्षरित सेप्टेज संग्रहण एवं निपटान प्रपत्र को विधिवत् भरकर अधिसूचित स्थानों पर सेप्टेज प्राप्त करने के लिये तैनात दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को प्रस्तुत करेगा। दिल्ली जल बोर्ड इलैक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी की मांग के लिए व्यवस्था करेगा।
2.	अध्याय—III, क्र० सं० 24 (पृष्ठ सं० 20) तथा साथ ही क्र० सं० 14 (पृष्ठ सं० 32) में एक नया खंड जोड़ा जायेगा।	कोई खंड मौजूद नहीं है।	1(क) अप्राधिकृत (बिना लाइसेंस वाले) संस्थाओं द्वारा सेप्टेज को जमा करने हेतु 50,000/—रुपये का जुर्माना तथा वाहन की जब्त होगी। (ख) प्राधिकृत लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर सेप्टेज के निपटान हेतु प्रति उल्लंघन 50,000/—रुपये का जुर्माना होगा। (ग) सेप्टेज के निर्वहन हेतु बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं/वाहनों की सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति पर प्रति उल्लंघन 10,000/—रुपये जुर्माना होगा। 2. डीएम कार्यालयों में नायब तहसीलदार, डीजेबी/आईएंडएफसी में जेई, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और एमसीडी में सेनेटरी इंस्पेक्टर के रैंक से कम का अधिकारी जुर्माना लगाने के लिए सक्षम नहीं होगा।
3.	अध्याय—V, क्र० सं० 31 (पृष्ठ सं० 21) निबंधन एवं शर्तें, 23—जीपीएस प्रणाली (पृष्ठ सं० 27) को लगाना	जीपीएस प्रणाली को लगाना—सेप्टेज के निर्वहन हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा तथा ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए इसे एक्सेस करने का अधिकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित एजेंसी को दिया जाएगा।	जीपीएस प्रणाली को लगाना—सेप्टेज के निर्वहन हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा तथा ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग हेतु मूवमेंट डेटा के एक्सेस का अधिकार दिल्ली जल बोर्ड को दिया जाएगा।
4.	सीवर लाइनों, सेप्टिक टैंकों और बंद गड्ढों (बिन्दु सं० 14) (पृष्ठ सं० 32) में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु संशोधित मानक संचालन पद्धतियां	कोई भी लाइसेंसधारी विक्रेता अधिसूचित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर सेप्टेज डंप करते हुए पाया गया तो उसे 50,000/—रुपये अथवा प्रति चूक हेतु समय-समय पर यथा अधिसूचित जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। दो चूक होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।	हटा दिया गया है।

अमित कुमार जैन, सचिव

के आदेश से,
के. एस. मीणा, आईएएस, विशेष सचिव (शहरी विकास)

संशोधित अनुलग्नक—(3)

(देखें विनियम—12 (ख))

संग्रहण और परिवहन रिकार्ड प्रपत्र

लाइसेंसधारी द्वारा भरने के लिए नमूना प्रपत्र

i. अपशिष्ट की पहचान:

क) मात्रा

ख) प्रकार-----

सेप्टिक टैंक-----अन्य

ग) पता

ii. अपशिष्ट उत्पादक का विवरण:

क) नाम

ख) दूरभाष संख्या

ग) पता

घ) पिन

विधिवत रूप से प्राधिकृत अद्योहस्ताक्षरी एतद् द्वारा स्रोत की सटीकता तथा एकत्रित एवं पहुंचाएं गए अपशिष्ट जल के प्रकार को प्रमाणित करता है।

दिनांक-----हस्ताक्षर (स्रोत के उत्पादक/स्वामी/अधिवासी)

iii. ट्रांसपोर्टर/ऑपरेटर का विवरण:

क) कम्पनी का नाम

ख) परमिट संख्या

ग) वाहन लाइसेंस

घ) बाहर निकालने की तारीख

उपरोक्त वर्णित अपशिष्ट जल को मेरे द्वारा निम्नलिखित निपटान सुविधा देने वाले के नाम पर संग्रहित एवं निपटान किया गया था और उसे प्रवाहित किया गया। मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्वोक्त कथन सत्य और सही है।

इ) ऑपरेटर द्वारा अपशिष्ट उत्पादक से प्रभारित राशि :-----

च) प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर एवं शीर्षक:-----

iv. -----डीजेबी के प्राधिकृत एसपीएस/एसटीपी द्वारा स्वीकृति

उपर्युक्त ट्रांसपोर्टर ने इस निपटान सुविधा के लिए वर्णित सेप्टेज दिया और इसे स्वीकार कर लिया गया।

निपटान तिथि-----ट्रांसपोर्टर से एकत्र की गई राशि-----

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं शीर्षक-----

नोट: दिल्ली जल बोर्ड सेप्टिक टैंक अपशिष्ट प्रबंधन विनियम, 2018 के निबंधनों और शर्तों तथा समय-समय पर इन विनियमों के तहत बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश/दिशा-निर्देश के अधीन।

DELHI JAL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2024

Delhi Water Board Septage Management (Amendment) Regulation, 2024

(No. 01 of 2024)

F.No.16(712)/UD/W/2023/2118.—In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Delhi Water Board Act, (Act No. 4 of 1998), the Board hereby makes the following regulation to further amend the Delhi Water Board Septage Management Regulation, 2018, namely:-

1) Short Title and Commencement:

- (1) This regulation may be called “Delhi Water Board Septage Management (Amendment) Regulation, 2024.
- (2) It shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2) Amendment of Delhi Water Board Septage Management Regulation, 2018 as under:

S.No.	Reference	As per existing DWBSMR' 2018	Shall be substituted.
1.	CHAPTER-III, 19 Disposal of Septage – Terms & Conditions, 11	(a) The Licensee shall dispose of Septage only at the locations notified by the Delhi Jal Board from time to time. (b) The Licensee shall submit duly signed Septage collection and disposal form prescribed at Annexure – 2 of these Regulations duly filled-in to the official of the Delhi Jal Board deployed to receive the Septage at the notified locations.	(a) No Change (b) The Licensee shall submit duly signed Septage collection and disposal form prescribed at <u>Annexure – 2 and</u> amended Annexure – 3 (copy enclosed) of these Regulations duly filled-in to the official of Delhi Jal Board deployed to receive the Septage at the notified locations. DJB shall make arrangements for requisition of the return in electronic form.
2.	CHAPTER – III A new clause to be added at S. No. 24 (Page No. 20) & also in S. No. 14 (Page 32)	No Clause exists	1 (a) Penalty for deposit of septage by unauthorized (unlicensed) entities shall be Rs. 50,000/- plus confiscation of vehicle. (b) Penalty for disposal of Septage at places other than the designated places by authorized licensee shall be Rs. 50,000/- per violation. (c) Penalty on a person who uses the services of unlicensed vendors/vehicles for discharging the septage shall be Rs. 10,000/- per violation. 2. An officer not lower than the rank of Naib Tehsildar in DM offices, JE in DJB/I&FC, Sub Inspector in Delhi Police and Sanitary Inspector in CD shall be competent to impose penalty.
3.	CHAPTER-V S.No. 31 (Page No. 21) Terms & Conditions, 23 – Installation of GPS System (Page No. 27)	Installation of GPS System – Each Vehicle used for transportation of septage shall be fitted with GPS device and access rights of the same shall be given to the respective District Magistrate and the agency notified by District Magistrate for tracking of such vehicles.	Installation of GPS System – Each Vehicle used for transportation of septage shall be fitted with GPS device and access rights of the movement data shall be given to the Delhi Jal Board for tracking of such vehicles.
4.	Modified Standard Operating Practices for workers safety in sewer lines, Septic tanks & closed pits (Point No. 14) (Page No. 32)	Any Licensee vendors found dumping septage other than the notified locations shall be liable to pay the penalty of Rs. 50,000/- or as notified from time to time per default. The License shall be cancelled for two defaults.	Deleted

AMIT KUMAR JAIN, Secy.

By Order,,
K. S. MEENA, IAS, Spl. Secy.

AMENDED ANNEXURE-(3)**(See Regulation-12-B)****COLLECTION AND TRANSPORT RECORDS FORM****Sample Form to be filled by Licensee****i. Identification of Waste**

- a) Volume
- b) Type: _____
 Septic Tank _____ Others
- c) Address

ii. Details of Waste Generator:

- a) Name
- b) Phone Number
- c) Address
- d) Pin

The undersigned being duly authorized does hereby certify the accuracy of the source and type of waste water collected and transported

Date _____ Signature (of the generator/owner/occupier)

iii. Details of Transporter/Operator:

- a) Company Name
- b) Permit No.
- c) Vehicle License
- d) Pump out date

The above described wastewater was collected and disposed by me to the disposal facility name below and was discharged. I certify that the foregoing is true and correct.

e) Amount charged by the operator to waste generator: _____

f) Signature of authorized agent and title: _____

iv. Acceptance by _____ **DJB's authorized SPS/STP**

The above transporter delivered the described Septage to this disposal facility and it was accepted.

Disposal Date _____ Amount Collected from Transporter _____

Signature of authorized signatory and title _____

NOTE: SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF DELHI WATER BOARD SEPTIC TANK WASTE MANAGEMENT REGULATIONS 2018 AND ORDERS/GUIDELINES ISSUED BY THE BOARD UNDER THESE REGULATIONS FROM TIME TO TIME.